



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]
No. 16]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 1983/फाल्गुन 16, 1904
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 1983/PHALGUNA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1983

आ० अ० 29(अ)—गुजरात से राज्य सभा के लिए निर्वाचित
सदस्य श्री पीलु होमी मोदी की अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु
हो जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) के
उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य की विधान
सभा के निर्वाचित सदस्यों में यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे व्यक्ति
को भरने के लिए उक्त अधिनियम और सवर्धन बनाए गए नियमों और
किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार तारीख 31 मार्च, 1983 से
पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित करें।

[सं० 100/रा०सं०-गुज०/1/83 (1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th March, 1983

O.N. 29(E).—Whereas a vacancy has occurred in the
Council of States due to death of Shri Piloo Homi Mody
a member elected to the Council of States from Gujarat,
before the expiration of his term of office;

1431 GL/82

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-
section (1) of Section 147 of the Representation of the People
Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the
elected members of the Legislative Assembly of the State
of Gujarat to elect, in accordance with the provisions of the
said Act and of the rules and orders made thereunder, a
person to fill the vacancy so caused before 31st March, 1983.

[No. 100/CS-GJ/1/83(1)]

आ० अ० 30(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा
39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी
अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (1) तारीख 7 मार्च, 1983
के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 14 मार्च 1983 (सोमवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की सवीक्षा की तारीख 15 मार्च, 1983 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 17 मार्च, 1983 (बुधवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा, तथा 25 मार्च, 1983 (शुक्रवार)
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 31 मार्च, 1983 (बुधवार)

नियत करता है।

[सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (2)]

(1)

O.N. 30(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-GJ/1/83(1), dated the 7th March, 1983 :—

- (a) 14th March, 1983 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) 15th March, 1983 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 17th March, 1983 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) 25th March, 1983 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 31st March, 1983 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-GJ-1/83(2)]

आ० अ० 31(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 7 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 1.00 बजे अपराह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (3)]

O.N. 31(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 1.00 P.M. to 3.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-GJ/1/83(1), dated the 7th March, 1983.

[No. 100/CS-GJ/1/83(3)]

आ० अ० 32(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, गुजरात सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83

(1) तारीख 7 मार्च, 1983 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, गुजरात, विधान मंडल सचिवालय, गांधी-नगर को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (4)]

O.N. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Gujarat hereby designates the Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-GJ/1/83(1), dated the 7th March, 1983.

[No. 100/CS-GJ/1/83(4)]

आ० अ० 33(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 7 मार्च, 1983 की अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए संयुक्त सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गांधीनगर को नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा० सं०-गुज०/1/83 (5)]

आदेश से
के० गणेशन, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

O.N. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Joint Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-GJ/1/83(1), dated the 7th March, 1983 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-GJ/1/83(5)]

By order,
K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India